



## कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 30/04/2021

### आक्सीजन सिलेण्डर की चोरी में वांछित अभियुक्तगण मिथिलेश कुमार पटेल व रामचन्द्र को थाना आदमपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा आक्सीजन सिलेण्डर की चोरी व दवाईयों की कालाबाजारी करने वाले आसमाजिक तत्वों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.4.2021 को थाना आदमपुर के उ0नि0 संतोष तिवारी चौकी प्रभारी लाटभैरव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व रात्रि गश्त में कज्जाकपुरा में मौजूद थें कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि भदऊ से राजघाट जाने वाली सड़क पर डाट पुलिया के पास कोनिया लिंक मार्ग पर लोडर टैम्पू में चोरी के आक्सीजन सिलेण्डर रखकर वाहन के पास मौजूद है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराह पुलिस बल के त्वरित कार्यवाही करते हुए मौक पर पहुँकर मुखबिर की निशादेही पर दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से चोरी के 02 आक्सीजन खाली सिलेण्डर बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उक्त खाली आक्सीजन सिलेण्डर कोनिया घाट नवनिर्मित पुलिया के पास से चोरी किया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पुलिस अभियुक्तगण मिथिलेश कुमार पटेल व रामचन्द्र को समय करीब 05.45 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मिथिलेश कुमार पटेल पुत्र रामचन्द्र पटेल निवासी उत्तरी ककरमत्ता DLW थाना मडुवाडीह वाराणसी।
2. रामचन्द्र पुत्र रामप्रसाद निवासी उत्तरी ककरमत्ता डी0एल0डब्लू0 थाना मडुवाडीह वाराणसी।

#### पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0-51/2021 धारा-379/411 भादवि थाना आदमपुर वाराणसी ।

#### बरामदगी का विवरण-

- 02 अदद खाली आक्सीजन सिलेण्डर
- 01 अदद वाहन सं0-यूपी-65 जेटी-3124 पियाजियों एपे एक्सट्रा एलडीएक्स मालवाहक

#### गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संतोष तिवारी चौकी प्रभारी लाट भैरव, का0 894 दिपान्शु सिंह व का0 अतुल वर्मा थाना आदमपुर वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस आयुक्त,  
वाराणसी।